



दिनांक:- 11.11.2020

# “महोबा पुलिस”



## थाना खन्ना पुलिस ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-



.....पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा जनपद में अवैध शराब/जुआ में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध धरपकड अभियान के तहत विधिक कार्यवाही किये जाने के आदेश के क्रम में कल दिनांक 10.11.2020 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0के0 गौतम के निर्देशन पर एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री शिव आसरे द्वारा गठित टीम ने दबिश देकर अभियुक्त 1. धीरू उर्फ धीरेन्द्र सिंह पुत्र बच्चा सिंह उम्र 27 वर्ष को शिवम चौहान की दुकान ग्राम ग्योडी के पास से एक प्लास्टिक के झोले में 23 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया जिस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 145/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

धीरू उर्फ धीरेन्द्र सिंह पुत्र बच्चा सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम ग्योडी थाना खन्ना।  
( मु.अ.सं.- 145/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम )

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम..थाना-खन्ना।

1. उ.नि. श्री त्रिभुवन सिंह
- 2 का. विकास कुमार



दिनांक:- 11.11.2020

# “महोबा पुलिस”



## “मिशन शक्ति” अभियान के तहत छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक:-

आज दिनांक 11.11.2020 को श्रीमती रचना राजपूत, नोडल अधिकारी मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा व सम्मान), महिला कल्याण अधिकारी श्रीमती प्रिया गुप्ता व प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई दीपक कुमार पाण्डेय द्वारा स्व0 श्री बट्टी सिंह बालिका इण्टर कालेज कबरई में तथा इसी क्रम में प्रभारी महिला थाना श्रीमती सुषमा चौधरी द्वारा मूंगफली दाना मिल, रामकथा मार्ग और कांशीराम कालोनी में स्कूली छात्राओं व घरेलू/कामकाजी महिलाओं के साथ आयोजित कार्यशाला में उ0प्र0 शासन/पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान \*मिशन शक्ति\*---“महिलाओं एवं बालिकाओं को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन” के लिए चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उपस्थित छात्राओं को उनकी सुरक्षा व सम्मान हेतु जारी महिला \*हेल्पलाइन नम्बरों- 1090,1098,181,1076,112,108 एवं महिला अपराध आदि की जानकारी देते हुये बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया\* ।

जागरूक करते हुये बताया गया कि थानों में स्थापित महिला हेल्प डेस्क में महिला अधिकारी की नियुक्ति की गयी है, जहां आप अपने साथ हुये दुर्व्यवहार/अभद्रता को खुलकर बता सकेंगी एवं जिसका त्वरित निस्तारण महिला हेल्प डेस्क में नियुक्त पुलिस महिला अधिकारी द्वारा किया जायेगा साथ ही महिलाओं से जुड़े विधिक अधिकारों की जानकारी भी देंगी । जिससे नारी गरिमा से खिलवाड करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्यवाही की जा सके । इसलिये आप असामाजिक तत्वों से कतई न डरे निर्भीक होकर उनकी शिकायत करें, जिससे ऐसे सोहदों के खिलाफ कानूनी विधिक कार्यवाही की जा सके।

आयोजित कार्यशाला में विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती जुलेखा, स0अ0 श्रीमती सुमन देवी, स0अ0 श्रीमती सीता देवी, स0अ0 पवन कुमार, स0अ0 सन्तोष कुमार, स0अ0 धर्मेन्द्र कुमार आदि सम्मानित शिक्षकगण व अन्य स्टाफ कर्मचारीगण मौजूद रहे ।





दिनांक:- 11.11.2020

# “महोबा पुलिस”



## थाना महोबकंठ पुलिस ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-



...पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा जनपद में अवैध शराब/जुआ में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध धरपकड अभियान के तहत विधिक कार्यवाही किये जाने के आदेश के क्रम में आज दिनांक 11.11.2020 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर०के० गौतम के निर्देशन पर एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महोबकंठ श्री दिनेश सिंह के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा अभियान में सम्मिलित होकर एक नफर अभियुक्त मनीष कबूतरा पुत्र श्रीलाल कबूतरा उम्र करीब 26 वर्ष को बिजली पावर हाउस पुलिया के पास ग्राम महोबकंठ से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में करीब 15 ली० कच्ची शराब नाजायज महुआ बरामद की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 173/20 धारा 60 EX ACT पंजीकृत किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

मनीष कबूतरा पुत्र श्रीलाल कबूतरा उम्र करीब 26 वर्ष निवासी कबूतरा डेरा महोबकंठ थाना महोबकंठ जपनद महोबा

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम..थाना-महोबकंठ।

1. उ०नि० दशरथ सिंह
2. हे० का० दिनेश चन्द्र



दिनांक:- 11.11.2020

# “महोबा पुलिस”



महोबा पुलिस